



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 2004—अप्रैल 23, 2004 (चैत्र 28, 1926)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 2004—APRIL 23, 2004 (CHAITRA 28, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

‘ [उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 04 मार्च 2004

नई दिल्ली-110011, दिनांक 04 मार्च 2004

सं. ए-19011/5/98-प्रशा. 1--केन्द्र में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा हो जाने पर श्री एस.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (असम, मेघालय : 78) को आयोग के कार्यालय में अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के कार्यभार से 06.3.2004 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है। उनको कार्यभार ग्रहण करने के लिए उनकी हकदारी के अनुसार 12 दिन की समयावधि की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त उनको 19.3.2004 से 8 अप्रैल 2004 तक के लिए 21 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है और 9 से 11 अप्रैल 2004 अवकाश दिवसों को उनके अर्जित अवकाश के साथ अनुयोजन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपने अवकाश की समाप्ति पर श्री एस.के. श्रीवास्तव अपने मूल संवर्ग में रिपोर्ट करें।

ए. के. दाश
संयुक्त सचिव (प्रशा. सत.)

सं. ए-19014/1/2004-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री तरसेम लाल, को.स. से. (सी एस एस) को संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में दिनांक 1.03.2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 11 मार्च 2004

सं. ए-19014/2/2004-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री पी.के.डे, भा.सां.से. (आई एस एस : 85) को संघ लोक सेवा आयोग में रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 11.03.2004 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 12 मार्च 2004

सं. ए-32013/1/2004-प्रशा. 2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा श्री डी.के. सामंतरे, अपर सचिव (नि.प्र.सा.से.), संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय, को अपने कार्यभार के अलावा तीन महीने के लिए अर्थात् 10.3.2004 (पूर्वाह्न) से 9.6.2004 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, आयोग कार्यालय में रु. 18,400-500-22,400 के वेतनमान में कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली) के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री डी.के. सामंतरे द्वारा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने संबंधी नियुक्ति का विनियमन मूल नियम 49 (III) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

दिनांक 17 मार्च 2004

सं. ए-32013/5/95-प्रशा. 2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग इस कार्यालय की दिनांक 16.12.2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में एतद्वारा आयोग कार्यालय के डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग सहायक श्री विजय कुमार की दिनांक 10.03.2004 से 9.6.2004 तक तीन महीने की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 8000-13500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रोग्रामर (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क', राजपत्रित) (अननुसूचित) के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. प्रोग्रामर के रूप में श्री विजय कुमार की यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें प्रोग्रामर के ग्रेड में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

दिनांक 23 मार्च 2004

सं. ए-35014/3/2003-प्रशा. 2--माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा इस श्री जी.सी. यादव, अनुभाग अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग को प्रतिनियुक्ति आधार पर आयोग कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में प्रारंभ में तीन वर्षों अर्थात् 22.3.2004 (पूर्वाह्न) से 21.3.2007 (अपराह्न) तक की और अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उप निदेशक (अ.भा.से.) संघ लोक सेवा आयोग (ग्रुप "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री जी.सी. यादव का वेतन उप निदेशक के रूप में उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5.1.94 के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 22 मार्च 2004

सं. डीपी/पर्स. 1/2004/1321/ए-20023/2/82--राष्ट्रपति ने श्री राज पाल सिंह, उप विधि सलाहकार, के.अ. ब्यूरो को 10.03.2004 अपराह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 23 मार्च 2004

सं. डीपी/पर्स. 1/2004/1335/3/20/2004--राष्ट्रपति ने श्री पी.सी. पाण्डे, भा. पु. सेवा (गुजरात : 1970) को 03.03.2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2004

सं. 2/22/2004-प्रशासन : केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री नत्थी राम को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 16.3.2004 (पूर्वाह्न) ये तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-03, दिनांक 26 मार्च 2004

सं. ई-16015/(2)/1/2002/पर्स-I/11 -- राष्ट्रपति, नियमित पदोन्नति होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों/अनि. को 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से के.ओ.सुब में सहायक कमांडेंट/अग्नि. के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम	कार्यालय/यूनिट जहां कार्यभार ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमांडेंट/अग्नि के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1. लज्जा राम	आरएसटीपीपी रिहन्दनगर	01.01.2004(अप.)
2. ओदेद्रा राजेन्द्र	टीएसटीपीपी तलचेर	27.01.2004(पूर्वा.)
3. आर.वी.के. नायर	एसएमपीएल राजकोट	14.01.2004(पूर्वा.)
4. एस. मंजु कुमार	एनएफएल विजयपुर	02.01.2004(पूर्वा.)
5. राज गोपाल पी.	बीडीएल भानूर	02.01.2004(अप.)
6. पी. विनोद	एसएसटीपीपी सिम्हाद्री	05.01.2004(पूर्वा.)
7. सुधीर कुमार	भेल हरिद्वार	02.01.2004(पूर्वा.)
8. ओमवीर प्रसाद शर्मा	एयूजीपीपी औरैया	12.01.2004(पूर्वा.)
9. पायाल कुमार बसु	डीएसपी दुर्गापुर	19.01.2004(पूर्वा.)
10. बिष्णु स्वरूप	एनएफएल पानीपत	14.01.2004(पूर्वा.)
11. नरेश कुमार	एचटीपीपी कासिमपुर	01.01.2004(पूर्वा.)

हस्ता. अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 02 अप्रैल 2004

सं. ई-16015/(2)/2/2003/पर्स-I/12 -- राष्ट्रपति, नियमित पदोन्नति होने पर निम्नलिखित उप कमांडेंटों को 12000-375-16500/- रुपए

के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से के.ओ.सुब में कमांडेंट के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/यूनिट जहां कार्यभार ग्रहण किया	नियमित आधार पर उप कमांडेंट/के पद पद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4
	सुश्री/श्री/श्रीमती		
1.	हेमराज गुप्ता	नीसा हैदराबाद	01.01.2004(पूर्वा.)
2.	शिखा गुप्ता	के.ओ.सुब मुख्यालय, नई दिल्ली	31.12.2003(अप.)
3.	सी.जी. शर्मा	ओएनजीसी अहमदाबाद	09.01.2004(पूर्वा.)
4.	ओम प्रकाश	एचटीपीपी कासिमपुर	01.01.2004(पूर्वा.)
5.	टी.डी. गोस्वामी	उ.पू.क्ष. मुख्यालय, कोलकाता	23.02.2004(पूर्वा.)
6.	जी.एस.आर. राजू	वीएसपी विजाग	24.01.2004(पूर्वा.)
7.	आर.पी. मिश्रा	आईओसी, मथुरा	31.12.2003(अप.)
8.	एस.एन. सिंह	ओटीएचपीपी ओबरा	01.01.2004(पूर्वा.)
9.	सी.के. बिष्ट	द्वितीय आ.वा. दिल्ली	31.12.2003(अप.)
10.	एम.एस.नकी	ओएनजीसी त्रिपुरा	31.12.2003(अप.)
11.	सुरेश कुमार के.सी.	के.ओ.सुब मुख्यालय, नई दिल्ली	03.03.2004(पूर्वा.)

हस्ता. अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 मार्च 2004

सं.-पी. सात-4/2003-कार्मिक-3--सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री एन.आर. देवनानी सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक ने दिनांक 16 फरवरी, 2004 (पूर्वाह्न) को रा.सु.गा. से प्रत्यावर्तन से वापस आने पर कार्यालय पुलिस उप महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, बल, खटखटी में प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जोगीन्द्र सिंह
कमान्डेंट (कार्मिक-3)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

[कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल]

कोलकाता-700001, दिनांक 24 मार्च 2004

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/239--महालेखाकार (लेखा व हक) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-II को इस आदेश द्वारा प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में वर्तमान रूप से 6,500-200-0,500/- में अस्थायी तथा स्थापनापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति जोकाहित में दिया गया।

क्रमांक नाम

1. श्री वृंजित कुमार माना
2. श्री देवशर्मा दास
3. श्री गणपति बंधोपाध्याय
4. श्री अजय सत्तार
5. श्री रंजित कुमार बसु

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीने से अन्तर एफ.आर.22(1)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

पी. के. दास
उपमहालेखाकार (लेखा)

[कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा)

पश्चिम बंगाल]

(स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)

कोलकाता-700064, दिनांक 01 अप्रैल 2004

स्था.ले.प.(प्र.) पेंशन/टिकेसी/204/73/6--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री तापस कुमार चट्टोपाध्याय, लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31-03-2004 (अपराह्न) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्ति हो चुके हैं।

सुपर्णा

व. उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)-I

स्था.ले.प.(प्र.) पेंशन/टिकेसी/204/72/7--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग के श्री रंजित कुमार माना, व लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31-03-2004 (अपराह्न) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्ति हो चुके हैं।

सुपर्णा

व. उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)-I

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-प्रथम, मध्यप्रदेश का कार्यालय

ग्वालियर-474007, दिनांक 29 मार्च 2004

क्र.प्रशा.-11/सं.-2/2585--महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को स्थापनापन्न सहायक लेखा अधिकारी के पद पर वर्तमान रूप से 7,450-225-11,500 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नत किया है। इन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों की परीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी।

क्रमांक	नाम	स्थायी क्रमांक	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का दिनांक
सर्वश्री			
1.	परमेश्वरी डी बिलगैयां	02/1858	1.1.2004 पूर्वाह्न
2.	मोहम्मद इस्ताक अहमद	02/2091	1.1.2004 पूर्वाह्न
3.	ज्ञान सिंह तोमर	02/2111	1.1.2004 पूर्वाह्न
4.	सियाराम गोयल	02/2256	1.1.2004 पूर्वाह्न
5.	अशोक कुमार पाराशर	02/2775	1.1.2004 पूर्वाह्न
6.	राम प्रकाश पांडे	02/2777	1.1.2004 पूर्वाह्न
7.	भगवान दास छपरया	02/3146	1.1.2004 पूर्वाह्न
8.	रमेश चन्द्र तरेटी	02/4318	1.1.2004 पूर्वाह्न
9.	अशफ़ी लाल	02/3377	1.1.2004 पूर्वाह्न
10.	एम. आर. अरविंदावक्षन	02/3001	1.1.2004 पूर्वाह्न
11.	मोहन सिंह कुशवाह	02/3625	1.1.2004 पूर्वाह्न
12.	महेश चन्द्र शर्मा	02/5233	1.1.2004 पूर्वाह्न
13.	राम चंदेरिया	02/4149	1.1.2004 पूर्वाह्न
14.	भागीरथ लहारिया	02/4592	1.1.2004 पूर्वाह्न
15.	मूलचंद साहू	02/4443	1.1.2004 पूर्वाह्न
16.	अंजोर दास देशलहरा	02/10134	1.1.2004 पूर्वाह्न
17.	लेओस लकड़ा	02/3930	1.1.2004 पूर्वाह्न
18.	रघुनाथ सिंह पवार	02/2405	1.1.2004 पूर्वाह्न
19.	चमन लाल	02/2408	1.1.2004 पूर्वाह्न
20.	बी. के. भट्टाचार्य	02/2417	5.1.2004 पूर्वाह्न
21.	सुचित कुमार	02/10169	1.1.2004 पूर्वाह्न
22.	ए. व्ही.एन. पंतुलू	02/10262	1.3.2004 अपराह्न
23.	कमल किशोर शर्मा	02/10092	1.3.2004 पूर्वाह्न

हस्ता/- अपठनीय

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, आन्ध्रप्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 25 मार्च 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वैच्छिक/अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गई तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	एच. बी. रमणा राव	स.ले.प.अ.	06.02.2004 पूर्वा. (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)
2.	ए. सत्यनारायणा-II	स.ले.प.अ.	29-02-2004 अप.
3.	सी. एच. ईश्वरराव	स.ले.प.अ.	29-02-2004 अप.

श्रीनिवासु

उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (ले व ह) कर्नाटक

बैंगलूर, दिनांक 10 मार्च 2004

सं. स्थापना 1/ए 8/2003-04/434--महालेखाकार (ले व ह) ने अगले आदेश तक निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखाधिकारी (ग्रुप 'बी') के रूप में रुपये 7,450-225-11,500 के वेतनमान पर दिनांक 10-03-2004 (पूर्वाह) अथवा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, जो भी बाद में हों, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के दावों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के पदोन्नत किया है :-

क्रम सं.	नाम	क. कोड सं.	अभ्युक्तियां
1.	श्रीमती पद्मा एस. आर.	19820104	--
2.	श्रीमती तारा के. एस.	19820302	प्रतिनियुक्ति पर

2. सहायक लेखा अधिकारी के वेतनमान पर उनका वेतन नियम एफ. आर. 221(ए)(1) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि के लिए वे परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. एफ. आर. 221(ए)(1) के अनुसार उच्चतर श्रेणी में वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी होने से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प प्रकट करना होगा।

4. क्रम सं. 1 (श्रीमती पद्मा एस.आर.) में दर्शाये गए अधिकारी की चार्ज रिपोर्ट उनके शाखा अधिकारी द्वारा स्थापना 1 को भेजे।

हस्ता/- अपठनीय

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल 2004

सं. ए-19018/1673/2003-प्रशा. (राज.)--श्री एन. एस. राममूर्ति, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी), लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलूर अन्तर्गत लघु उद्योग विकास संगठन का दिनांक 13-02-2004 को निधन हो गया है।

एस. वि. एन. पिल्लै
उपनिदेशक (प्रशा.)

दिनांक-05 अप्रैल 2004

सं. ए-19018/620/82-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर में उप निदेशक (यांत्रिकी), श्री आर. एस. यादव को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, आगरा में निदेशक (यांत्रिकी) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 25-03-2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 05 अप्रैल 2004

सं. ए-19011/221/2002 स्था.ए.पी.पी.--श्री आर. बी. देशमुख, क्षेत्रीय खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31-03-2004 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 26 मार्च 2004

सं. सी.-51/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफरों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) सामान्य केन्द्रीय

सेवा ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम नाम सं.	पदोन्नति की तिथि
1. श्री रमेश ठाकुर	27-01-2004
2. श्री प्यारे लाल (अनुसूचित जाति)	30-01-2004
3. श्री जे. सुधाकर राव (अनुसूचित जन जाति)	16-02-2004
4. श्री नन्द किशोर (पी. एच.)	30-01-2004

डा. पृथ्वीश नाग
महासर्वेक्षक

सं. सी-58/913-एच(ए)--निम्नलिखित हिन्दी अनुवादकों (वरिष्ठ) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम नाम सं.	पदोन्नति की तिथि
1. श्री उर्वा दत्त	04-03-2004
2. श्री अरविन्द कुमार शर्मा	05-03-2004

डा. पी. नाग
महासर्वेक्षक

भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 31 मार्च 2004

संदर्भ पीडी/12(2)/2003-आर-III/400--नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एस एस देवकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, को दिनांक 03-02-2004 (पूर्वाह्न) से 05-03-2004 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कर्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवांकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 05 मार्च 2004

सं. 18/1(2)/2004-ईआर--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, डॉ. के.एस. पार्थसारथी ने दिनांक 31 जनवरी 2004 के अपराह्न से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से वैज्ञानिक अधिकारी/एच के पद पर कार्यभार त्याग दिया है।

के. पद्मनाभन
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 30 मार्च 2004

सं. 6(2318)/2001 प्रशा./2146--राष्ट्रपति, श्री वी. सी. चतुर्वेदी, (सी एस एस) अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई का कार्यकाल दिनांक 15 मार्च, 2004 से एक वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई 400094, दिनांक 26 मार्च 2004

संदर्भ: क्रभनि/10006/भर्ती/1253--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई के क्रय सहायक श्री जी. के. केलुस्कर को इसी निदेशालय में दिनांक 16-02-2004 (पूर्वाह्न) से 19-03-2004 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

टी. किशन
प्रशासनिक अधिकारी-III

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 26 मार्च 2004

सं. पखनि-16/1/2001-भर्ती/364--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई के सहायक लेखाकार (वेतनमान रु. 6,500-10,500), श्री डी. के. शिन्दे को तारीख 14-10-2003 पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,450-11,500) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 मार्च 2004

सं. ए-19011/5/90-स्था. 2 (खंड-II)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते पर श्री के. बागची, प्रचालन निदेशक को दिनांक 31-03-2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आर. एस. कटरिया
प्रशासन उपनिदेशक

दिनांक 31 मार्च 2004

सं. ए-32013/3/2001-स्था.2--इस कार्यालय के दिनांक 12-09-2003 की समसंख्यक अधिसूचना को जारी रखते हुए राष्ट्रपति, श्री सुभाष चन्दर की उप महानिदेशक नागर विमानन के पद पर 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में दिनांक 01-04-2004 से श्री आर. पी. साही के प्रतिनियुक्ति से वापिस आने तक अथवा अन्य नियमित रिक्ति के आने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति को आगे बढ़ाते हैं।

आर. एस. कटारिया
उपनिदेशक, प्रशासन

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन. एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 18 मार्च 2004

सं. 3-1478/2004-अनु. स्था.--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान पर प्रशासनिक अधिकारी, सा. सि. से. (समूह "ख") (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अस्थाई आधार पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम	कार्य स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री ओ. आर. चावला	केन्द्रीय मुख्यालय, 28-01-2004 फरीदाबाद (पूर्वाह)	
2.	श्री राम चन्दर	प्रभाग 7, गुवाहाटी 30-01-2004 (पूर्वाह)	
		पी.सी. चतुर्वेदी अध्यक्ष	

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2004--श्री आर. एम. ताम्बे, सहायक पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ, पुणे, निर्वतन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 जनवरी, 2004 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

विमल गांधी
अध्यक्ष

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 मार्च 2004

सं. 560/55-12075/ओजी2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स विनस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नन्दू पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 6 अप्रैल 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/9833/560(3)/2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो कम्पनी का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनी विघटित समझी जाएगी।

बि.ए.एम.पी. रत्नसामी
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682 011, दिनांक 1 अप्रैल 2004

सं. 560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्र.सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	1215	मै. ट्रावल एण्ड ट्रांसपोर्ट कं. लिमिटेड
2.	1960	मै. सुपर रबर्स प्रा. लि.
3.	2427	मै. प्रीमियर गन पावर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
4.	2459	मै. कोचीन फरनासेस और इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड
5.	2734	मै. मनारकाट्ट ब्रादर्स प्रा. लि.
6.	2879	मै. कोसमोस टैक्सटाइल्स एसेसरीज मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.
7.	2881	मै. सिमिलिया मेडीकल्स प्रा. लि.
8.	3264	मै. केरला शेअर इनवेस्टर्स प्रा. लि.
9.	3378	शान्धीगिरी इंजीनियरिंग और कन्सल्टेशन कं. प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
10.	4336	मै. ब्रुकमेड लेबोरेटरीज प्रा. लि.	32.	8639	मै. ब्रिल्लियन्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
11.	4346	मै. जय जय इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि.	33.	8676	मै. केयिस ट्रेड लिंक्स लिमिटेड
12.	4695	मै. उदय सूर्या रबर्स प्रा. लि.	34.	8712	मै. अन्जो फाइनेन्स कं. प्रा. लि.
13.	5059	मै. वर्गीस ब्रादर्स इंजीनियरिंग प्रा. लि.	35.	8949	मै. डीम्स इंडिया कन्सलटेंट्स लिमिटेड
14.	5393	मै. ओजो मराईन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.	36.	8950	मै. मुगेन्द्रा चिट्स एण्ड फाइनेन्स प्रा. लि.
15.	6034	मै. ड्रीम कोसमेटिक्स प्रा. लि.	37.	8994	मै. मंगल फंड्स लि.
16.	6141	मै. ग्रान्ड डिजाइनर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.	38.	9263	मै. फानयसी कोसमेटिक्स प्रा. लि.
17.	6449	मै. ऋषी फाइनर्स प्रा. लि.	39.	9401	मै. उदया सूर्या प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
18.	6480	मै. एस. वी. ब्रोकर्स एण्ड कन्सलटेंट्स प्रा. लि.	40.	10424	मै. मनीटो एक्सपोर्ट्स लि.
19.	6509	मै. एएजी इन्वेस्टमेंट्स कन्सलटेंट्स प्रा. लि.	41.	10479	मै. मैकनो इंजीनियर्स एण्ड कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
20.	6913	मै. गलाईडर एजेन्सीज प्रा. लि.	42.	10667	मै. होली हिल्स टूरिस्ट रिसोर्ट्स प्रा. लि.
21.	7729	मै. सुफियन्स चिट्स एण्ड फाइनेन्सर्स प्रा. लि.	43.	11265	मै. ब्लूरेस सोफ्टवेयर प्रा. लि.
22.	7746	मै. यूशुस मैनेजमेंट एण्ड कम्प्युनिकेशन सर्विसेस प्रा. लि.	44.	12205	मै. सत्या मिनरल वाटर प्रा. लि.
23.	7831	मै. इन्डसुन्स मार्केटिंग प्रा. लि.	45.	12305	मै. साम इंडिया टूरर्स प्रा. लि.
24.	7886	मै. कलपाका फूड्स लि.	46.	13015	मै. के. वी. आर. हेयर परचेज प्रा. लि.
25.	8075	मै. टीम स्टील फैब्रीकेशन्स प्रा. लि.	47.	13141	मै. पजहासी कम्प्यूटेक प्रा. लि.
26.	8313	मै. प्रकृति फाइबर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	48.	13209	मै. अशतामीचीरा सैनचुरी होस्पिटल्स लिमिटेड
27.	8342	मै. कुनुक्कासेरिल कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	49.	13703	मै. मिलेनियम एच आर सरविसेज प्रा. लि.
28.	8377	ब्लोसम ट्रेडिंग हाऊस प्रा. लि.	50.	13704	मै. वायलवारम ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
29.	8435	दावनकोर कपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	51.	13824	मै. केरला प्लस, कॉम प्रा. लि.
30.	8441	मै. इन्डो एटलांटिक रबर प्रोडक्ट्स लि.	52.	14267	डाट एक्सिम प्रा. लि.
31.	8592	मै. केयिस फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि.			

टी. अमरनाथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरला

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st April 2004

No. F.20/2004-SCA(I)—Shri R.P. Dua, Offg. Joint Registrar and Shri P.S. Chauhan, Offg. Assistant Registrar have retired from the service of the Registry of Supreme Court of India with effect from the afternoon of March 31, 2004 on their attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR
Jt. Registrar (Admn.)

New Delhi, the 2nd April 2004

No. F.44/2000/SCA/Genl.—In pursuance of Rule 4 of the Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, May 10, 2004 to Sunday, July 4, 2004 (both days inclusive) and will reopen on Monday, July 5, 2004.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Benches for hearing of urgent cases during the Summer Vacation for the periods from May 10 to June 6, 2004 and June 7 to July 4, 2004.

For the period from May 10 to June 6, 2004 :—

Hon'ble Mrs. Justice Ruma Pal and Hon'ble Mr. Justice B.N. Agrawal.

For the period from June 7 to July 4, 2004 :—

Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan and Hon'ble Mr. Justice P.V. Reddi.

The Division Bench comprising Hon'ble Mrs. Justice Ruma Pal and Hon'ble Mr. Justice B.N. Agrawal will sit in the Court on Mondays falling on May 17 and May 31, 2004 and the Division Bench comprising Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan and Hon'ble Mr. Justice P.V. Reddi will sit in the Court on Mondays falling on June 14 and June 28, 2004. The sitting will, however, continue on the following day if the matters fixed for any day remain unfinished on that day.

During the Summer Vacation, the Registry of the Court will remain open daily from 10.00 A.M. to 4.30 P.M. except on Saturdays, Sundays and Holidays. The Registry of the Court will, however, remain open on Saturday, July 3, 2004 from 10.00 A.M. to 1.00 P.M.

R.C. GANDHI
Registrar (Admn. J)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 8th March 2004

No. A-19011/5/98-Admn.I—On completion of his deputation tenure at Centre Shri S.K. Srivastava, IAS (AM:78), has been relieved of his duties as Additional

Secretary & Financial Adviser in the Commission's Office w.e.f. the afternoon of 6th March 2004. He has been allowed joining time of 12 days as per his entitlement. He has further been sanctioned Earned Leave for 21 days w.e.f. 19th March, 2004 to 8th April 2004 with permission to suffix to his leave holidays falling on 9th to 11th April, 2004.

2. On the expiry of his leave Shri S.K. Srivastava may report to his parent cadre.

A.K. DASH
Jt. Secy. (AV)

New Delhi, the 4th March 2004

No. A-19014/1/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Tarsem Lal, CSS, as Deputy Secretary in the Office of the Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 1st March 2004 until further orders.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 11th March 2004

No. A-19014/02/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri P.K. De, ISS (85), as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 11th March 2004 or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 12th March 2004

No. A-32013/1/2004-Admn.II—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri D.K. Samantaray, Additional Secretary (AAGS) in the office of UPSC to hold additional charge of the post of Executive Director (Information System) in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 in the Commission's office in addition to his own duties for a period of three months w.e.f. 10.3.2004 (FN) to 09.6.2004 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri D.K. Samantaray to hold additional charge will be regulated in accordance with the provisions contained in FR 49(iii).

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

The 17th March 2004

No. A-32013/5/95-Admn.II—In continuation of this office notification of even number dated 16.12.2003 the Chairman

Union Public Service Commission hereby appoints Shri Vijay Kumar, Data Processing & Programming Assistant in the Commission's office to officiate as Programmer (General Central Service Group 'A', Gazetted) (Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 8000—13500 in the office of Union Public Service Commission on ad-hoc promotion basis for a further period of three months w.e.f. 10.3.2004 to 09.6.2004 or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Vijay Kumar as Programmer is purely on ad hoc basis and shall not confer upon them any title for regular appointment or seniority in the grade of Programmer.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

The 23rd March 2004

No. A.35014/3/2003-Admn.II—Hon'ble Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri G.C. Yadav, Section Officer, UPSC to the post of Deputy Director (AIS), UPSC (Group "A" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on deputation basis in the Commission's office initially for a period of three years w.e.f. 22.03.2004 (F/N) to 21.03.2007 (A/N) or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment as Deputy Director on deputation basis, the pay of Shri G.C. Yadav will be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per. & Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 05.01.94 as amended from time to time.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 22nd March 2004

No. DP-Pers.I/2004/1321/A-20023/2/82-AD.V—The President is pleased to appoint Sh. Raj Pal Singh, Dy. Legal Adviser, CBI as Addl. Legal Adviser in the CBI with effect from the afternoon of 10.3.2004 and until further orders.

S.D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

The 23rd March 2004

No. DP/Pers.I/2004/1335/3/20/2004—The President is pleased to appoint Shri P.C. Pande, IPS (GJ:1970) as Additional Director in Central Bureau of Investigation, on deputation basis, with effect from the forenoon of March 3, 2004 until further orders.

S.D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 7th April 2004

No. 2/22/04-Admn/5777.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Nathi Ram, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- for a period of three months on ad hoc basis with effect from 16.3.2004 (F/N) till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-03, the 26th March 2004

No. E-16015/(2)/1/2002/Pers.I/-11.—The President is pleased to appoint the following Inspector/Fire on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/Fire in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in CISF with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Assistant Commandant/Fire on regular basis
1.	Lajja Ram	RSTPP Rihandnagar	01.01.2004 (AN)
2.	Odedra Rajendra	TSTPP Talcher	27.01.2004 (FN)
3.	R.V.K. Nair	SMPL Rajkot	14.01.2004 (FN)
4.	S. Santosh Kumar	NFL Vijaypur	02.01.2004 (FN)
5.	Raja Gopal P.	BDL Bhanur	02.01.2004 (AN)
6.	P. Vinod	SSTPP Simhadri	05.01.2004 (FN)
7.	Sudhir Kumar	BHEL Hardwar	02.01.2004 (FN)
8.	Omvir Prasad Sharma	AUGP Auraiya	12.01.2004 (FN)
9.	Payal Kumar Basu	DSP Durgapur	19.01.2004 (FN)
10.	Bishnu Swaroop	NFL Panipat	14.01.2004 (FN)
11.	Naresh Kumar	HTPP Kasimpur	01.01.2004 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 02nd April 2004

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/-12.—The President is pleased to appoint the following Deputy Commandants on

regular promotion to the rank of Commandant in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in CISF with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant/Fire on regular basis
	(S/Shri/Smt.)		
1	Hemraj Gupta	NISA Hyderabad	01.01.2004 (FN)
2	Shikha Gupta	CISF Hqrs, New Delhi	31.12.2003 (AN)
3	C.G. Sharma	ONGC Ahmedabad	09.01.2004 (FN)
4	Om Prakash	HTPP, Kasimpur	01.01.2004 (FN)
5	T.D. Goswami	NEZ Hqrs, Kolkata	23.02.2004 (FN)
6	G.S.R. Raju	VSP, Vizag	24.01.2004 (FN)
7	R.P. Mishra	IOC, Mathura	31.12.2003 (AN)
8	S.N. Singh	OTHPP, Obra	01.01.2004 (FN)
9	C.K. Bisht	2nd Res Bn Delhi	31.12.2003 (AN)
10	M.S. Naqi	ONGC, Tripura	31.12.2003 (AN)
11	Suresh Kumar K.C.	CISF Hqrs, New Delhi	03.03.2004 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

New Delhi-110003, the 26th March 2004

No. P. VII-4/2003-Pers.-3 —Consequent on his promotion to the post of Administrative/Section Officer Shri N.R. Devnani, Subedar Major/Office Superintendent has taken over charge as Administrative/Section Officer in DIGP, CRPF, Khatkhathi Office in the forenoon of 16th February, 2004 on repatriation from N.S.G.

JOGINDRA SINGH
Commandant (Pers.-III)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL)

Kolkata-700001, the 24th March 2004

No. WM-I/Estt/239.—Under the orders of the A.G. (A&E), W.B., the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade I in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- in

temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (Two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No. Name

1. Yudhisthir Manna
2. Debasis Das
3. Ganapati Bandyopadhyay
4. Abdus Sattar
5. Raj Kumar Basu

The above named officers may submit their options under FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as D.A.O. Grade I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Genl. (A/cs.)

ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL BODIES AUDIT) WEST BENGAL)

(LOCAL AUDIT DEPARTMENT)

Kolkata, the 1st April 2004

No. LA/Admn/Pen/TKC/204/73/6.—Shri Tapas Kumar Chattopadhyay, Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 31.03.2004 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Local Bodies)-I

No. LA/Admn/Pen/RKM/204/72/7.—Shri Ranajit Kumar Manna, Sr. Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 31.03.2004 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Local Bodies)-I

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), MADHYA PRADESH

Gwalior, the 29th March 2004

No. Admn.XI/Gr.II/2585.—Accountant General (Audit)-I, M.P. Gwalior has been pleased to promote the following Section Officers as Asstt. Audit Officers in the officiating capacity in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 with effect

from the date noted against each. They will be on probation for a period of two years.

Sl. No.	Name	Permanent No.	Date of promotion as AAO
S/Shri			
1.	Parmeshwar D. Bilgaiyan	02/1858	1.1.2004 (F.N.)
2.	Mohammad Istaq Ahmad	02/2091	1.1.2004 (F.N.)
3.	Gyan Singh Tomar	02/2111	1.1.2004 (F.N.)
4.	Siya Ram Goyal	02/2256	1.1.2004 (F.N.)
5.	Ashok Kumar Parashar	02/2775	1.1.2004 (F.N.)
6.	Ram Prakash Pandey	02/2777	1.1.2004 (F.N.)
7.	Bhagwan Das Chhapanya	02/3146	1.1.2004 (F.N.)
8.	Ramesh Chandra Tarete	02/4318	1.1.2004 (F.N.)
9.	Asharfi Lal	02/3377	1.1.2004 (F.N.)
10.	M.R. Arvindakshan	02/3001	1.1.2004 (F.N.)
11.	Mohan Singh Kushwah	02/3625	1.1.2004 (F.N.)
12.	Mahesh Chandra Sharma	02/5233	1.1.2004 (F.N.)
13.	Shri Ram Chanderiya	02/4149	1.1.2004 (F.N.)
14.	Bhagi Rath Lahariya	02/4592	1.1.2004 (F.N.)
15.	Mool Chand Sahu	02/4443	1.1.2004 (F.N.)
16.	Anjor Das Deshalhara	02/10134	1.1.2004 (F.N.)
17.	Leos Lakra	02/3930	1.1.2004 (F.N.)
18.	Raghunah Singh Pawar	02/2405	1.1.2004 (F.N.)
19.	Chaman Lal	02/2408	1.1.2004 (F.N.)
20.	B.K. Bhattacharya	02/2417	5.1.2004 (F.N.)
21.	Suchit Kumar	02/10169	1.1.2004 (F.N.)
22.	A.V.N. Pantulu	02/10262	1.3.2004 (A.N.)
23.	Kamal Kishore Sharma	02/10092	1.3.2004 (F.N.)

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 25th March 2004

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officers (Civil) with effect from the date(s) noted against their names:—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of retirement
S/Shri		
1.	H.V. Ramana Rao	06.02.2004 (FN) (Vol. Retirement)
2.	A. Satyanarayana-II	29.02.2004 (AN)
3.	Ch. Eswara Rao	29.02.2004 (AN)

G. SRINIVAS,

Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),

KARNATAKA

Bangalore, the 10th March 2004

No. ES I/A-8/2003-2004/434.—The Accountant General (A&E), is pleased to promote the following Section Officers as Assistant Accounts Officers (Group 'B' Gazetted) carrying the scale of pay of Rs. 7,450-225-11500 with effect from 10.03.2004 (FN) or from the date of assuming charge whichever is later without prejudice to the claims of seniors, if any, until further orders.

Sl. No.	Name	EC. Number	Remarks
1.	Smt. Padma S.R.	19820104	—
2.	Smt. Tara K.S.	19820302	On deputation

2. Their pay in Assistant Accounts Officer's scale shall be fixed in accordance with Rule FR 22(I)(a)(1). They will be on probation for a period of two years from the date of taking charge.

3. Option has to be exercised by them for fixation of pay in higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of order.

4. The Charge report in respect of Officer at Sl. No. 1 (Smt. Padma S.R.) may be sent to ES I through her Branch Officer.

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 1st April 2004

No. A-19018/1673/2003-Admn.(G).—Shri N.S. Ramamurthy, Assistant Director (Grade II) (Mechanical), Small Industries Service Institute, Bangalore under Small Industry Development Organisation passed away on 13.02.2004.

S.V.N. PILLAI,
Dy. Director (Admn.)

The 5th April 2004

No. A-19018/620/82-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri R.S. Yadav, Deputy Director (Mechanical), Small Industries Service Institute, Nagpur as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Small Industries Service Institute, Agra with effect from the forenoon of 25.03.2004 until further orders.

S.V.N. PILLAI,
Dy. Director Admn.)

MINISTRY OF COAL AND MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 5th April 2004

No. A-19011/221/2002-Estt.APP—Shri R.B. Deshmukh, Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the Afternoon of 31.3.2004 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD,
Asstt. Admn. Officer
Indian Bureau of Mines

SURVEY OF INDIA

(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehradun-248001, the 26th March 2004

No. C-51/594.—The undermentioned Senior Reprographers are hereby promoted as Assistant Manager (Map Reproduction) General Central Service Group 'B' Post (Gazetted) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500 on regular basis with effect from the date(s) as shown against their names:

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Ramesh Thakur	27.01.2004
2.	Shri Pyare Lal (SC)	30.01.2004
3.	Shri J. Sudhakara Rao (ST)	16.02.2004
4.	Shri Nand Kishore (PH)	30.01.2004

(DR.) P. NAG,
Surveyor General of India

No. C-58/913-H(A)—The undermentioned Hindi Translators (Senior) are hereby promoted as Assistant Director (Official Language) (GCS Group- 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 on regular basis with effect from the date as shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Urva Datt	04.03.2004
2.	Shri Arvind Kumar Sharma	05.03.2004

(DR.) P. NAG,
Surveyor General of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 31st March 2004

No. PD/12(2)/2003-R-III/400.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri S.S. Deokar, Upper Division Clerk, as Asstt. Personnel Officer in this Research

Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 03.02.2004 (FN) to 05.03.2004 (AN).

K.C. DIVAKARAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 5th March 2004

No. 18/1(2)/2004-ER/658.—Consequent on attaining the age of superannuation, Dr. K.S. Parthasarathy has relinquished the charge of the post of Scientific Officer (H) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the afternoon of January 31, 2004.

K. PADMANABHAN,
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 30th March 2004

No. 6(2318)/2001/Adm/2146.—The President is pleased to extend the tenure of Shri V.C. Chaturvedi (CSS), Under Secretary (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200), Department of Atomic Energy, Mumbai for a period of one year from 15.03.2004.

M. VENUGOPALAN,
Staff Relations Officer

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400 094, the 26th March 2004

No. DPS/10006/Rectt./1253.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri G.K. Keluskar, Purchase Assistant, CPU, DPS, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same Directorate w.e.f. 16.02.2004(FN) to 19.03.2004 (AN).

T. KISHAN,
Administrative Officer-III

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500 016, the 26th March 2004

No. AMD-16/1/2001-Rectt./364.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri D.K. Shinde, Assistant Accountant (Pay Scale Rs. 6500-10,500), DPS, Mumbai as Assistant Accounts Officer (Pay Scale Rs. 7450-11,500) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 14.10.2003 until further orders.

K. DAMODARAN,
Chief Admin. & Accts. Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 29th March 2004

No. A-19011/590-E.II. (Vol. II).—On attaining the age of superannuation, Shri K. Bagchi, Director of Operations stands retired from Government Service with effect from 31.03.2004 (afternoon).

R. S. KATARIA,
Dy. Director of Admn.

The 31st March 2004

No. A-32013/32001-E.II.—In continuation of this office Notification No. A-32013/3/2001-E-II dated 12.09.2003, the President of India is pleased to extend appointment of Shri Subhash Chander with effect from 01.04.2004 to the post of Deputy Director General of Civil Aviation, in the pay scale of Rs. 16400-450-20000 upto the date of repatriation of Shri R.P. Sahi to this office from deputation or an other regular vacancy arises, whichever is earlier.

R. S. KATARIA,
Dy. Director of Admn.

**MINISTRY OF WATER RESOURCES
(CENTRAL GROUND WATER BOARD)**

NH-IV, Faridabad, the 18th March 2004

No. 3-1478/2004-Min.Estt.1540—On the recommendations of the DPC, the following office Superintendents are promoted to the post of Administrative Officers GCS (Group 'B') (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in Central Ground Water Board, on temporary basis from the dates as indicated against each:—

Sl. No.	Name	Place of posting	Date of appointment
1.	Shri O.R. Chawla	CHQ, Faridabad	28.01.2004 (FN)
2.	Shri Ram Chander	Div. VII, Guwahati	30.01.2004 (FN)
P.C. CHATURVEDI, Chairman			

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 23rd February 2004

No. F.48-Ad(AT)/2003.—Shri R.M. Tambe, Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Pune Bench, Pune, retired from Government Service on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st January, 2004.

VIMAL GANDHI,
President

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)**

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Venus International Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 26th March 2004

No. 560/55-12075/OG2/445—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venus International Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R.K. SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Nandu Poultry Products Pvt. Ltd.

Bangalore-34, the 6th April 2004

No. STA-NKR/9833/560(3)/2003-2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the company M/s. Nandu Poultry Products Private Limited unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B A.M.P. RATHNASAMI,
Dy. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act 1956 and of the
following companies.

Cochin-682011, the 1st April 2004

No. 560(5)/LiQ/1390.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :

Sl. No.	Reg. No.	Company Name
1	2	3
1.	1215	Travel & Transport Co. Ltd.
2.	1960	Super Rubbers Pvt Ltd.
3.	2427	Premier Gun Power Industries Pvt Ltd.
4.	2459	Cochin Furnaces & Engineering Works Pvt Ltd.
5.	2734	Manarkattu Brothers Pvt Ltd.
6.	2879	Cosmos Textiles Accessories Manufacturing Co. Ltd.

1	2	3
7.	2881	Similia Medicals Pvt Ltd.
8.	3264	Kerala Share Investors Pvt Ltd.
9.	3378	Santhigiri Engineering and Construction Co Pvt. Ltd.
10.	4336	Brukmed Laboratories P Ltd.
11.	4346	Jay Jay Electronics (P) Ltd.
12.	4695	Udaya Surya Rubbers P Ltd.
13.	5059	Varghese Brothers Engineering Pvt Ltd.
14.	5393	Ojo Marine Exports (P) Ltd.
15.	6034	Dream Cosmetics Pvt Ltd.
16.	6141	Grand Designers and Builders Pvt Ltd.
17.	6449	Rshi Finance Pvt Ltd.
18.	6480	S. V. Brokers and Consultants Pvt. Ltd.
19.	6509	Aag Investment Consultants Pvt Ltd.
20.	6913	Glider Agencies Pvt Ltd.
21.	7729	Sufians Chits and Financiers Pvt Ltd.
22.	7746	Ushus Management and Communication Services Pvt. Ltd.
23.	7831	Indsums Marketing Pvt. Ltd.
24.	7886	Kalpaka Foods Ltd.
25.	8075	Tim Steel Fabrications Pvt. Ltd.
26.	8313	Prakrithi Fibre and Allied Products Pvt. Ltd.
27.	8342	Kunukkasseril Constructions Pvt. Ltd.
28.	8377	Blossom Trading House Pvt. Ltd.
29.	8435	Travancore Capital Investments Pvt. Ltd.

1	2	3
30.	8441	Indo Atlantic Rubber Products Limited.
31.	8592	Kays Finance and Investments Ltd.
32.	8639	Brilliant Exports Limited.
33.	8676	Kays Trade Links Ltd.
34.	8712	Anjo Finance Company Private Limited.
35.	8949	Dreams India Consultants Limited.
36.	8950	Mrugendra Chits and Finance Pvt. Ltd.
37.	8994	Mangal Funds Ltd.
38.	9263	Fantasy Cosmetics Pvt. Ltd.
39.	9401	Udaya Surya Projects Pvt. Ltd.
40.	10424	Manito Exports Limited.
41.	10479	Mechno Engineers and Contractors Pvt. Ltd.
42.	10667	Holy Hills Tourist Resorts Pvt. Ltd.
43.	11265	Bluerays Software Pvt. Ltd.
44.	12205	Satya Mineral Water Pvt. Ltd.
45.	12305	Sam India Tours Pvt. Ltd.
46.	13015	KVR Hire Purchase Pvt. Ltd.
47.	13141	Pazhassi Computech Pvt. Ltd.
48.	13209	Ashtamichira Century Hospitals Ltd.
49.	13703	Millennium Hr Services Pvt. Ltd.
50.	13704	Vayalvaram Trading Company Pvt. Ltd.
51.	13824	Keralaplus Com Pvt. Ltd.
52.	14267	Dot Exim Pvt. Ltd.

T. AMARNATH,
Registrar of Companies.
Kerala.